



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल  
नामांकन आवेदन पत्र कक्षा 9वीं 2021-22

1 आवेदक का प्रकार  संबंधित कोड नम्बर ही खाने में भरिये नियमित-1

यदि छात्र नेत्रहीन, मूक-बधिर है तो उसका प्रकार - नेत्रहीन  मूक-बधिर  संबल   
मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हँ/नहीं

क्या अर्हकारी परीक्षा अन्य बोर्ड/अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, यदि हँ तो बोर्ड एवं वर्ष की जानकारी अंकित करें।

वर्ष  परिणाम  श्रेणी

रोल नम्बर  बोर्ड का नाम

2 आवेदक का पूरा नाम FULL NAME OF CANDIDATE

3 पिता का पूरा नाम FULL NAME OF FATHER

4 माता का पूरा नाम FULL NAME OF MOTHER

5 जन्म तिथि         जन्म तिथि  (शब्दों में)

6 जिला कोड  विकास खण्ड कोड  शाला/अग्रभेग संस्था कोड

जिले का नाम  विकास खण्ड का नाम

माध्यम  हिन्दी -1  अंग्रेजी -2  उर्दू -3

7 भाषा विषय :-

प्रथम भाषा (विशिष्ट)	<input type="text"/>	केवल नेत्रहीन, मूक-बधिर छात्र हेतु
द्वितीय भाषा (सामान्य)	<input type="text"/>	(केवल नेत्रहीन, मूक-बधिर छात्र गणित विषय कोड 100 अथवा विज्ञान विषय कोड 200 के स्थान पर संगीत विषय कोड 161 अथवा पेंटिंग विषय कोड 162 ले सकते हैं। अन्य सभी छात्रों को गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय अनिवार्य है।)
तृतीय भाषा (सामान्य)	<input type="text"/>	

8 पत्र व्यवहार का पता:-

House No. :	<input type="text"/>
Colony :	<input type="text"/>
Town :	<input type="text"/>
Block :	<input type="text"/>
District :	<input type="text"/>
Phone No. :	<input type="text"/>
Pin :	<input type="text"/>

परीक्षार्थी का नवीनतम नाम, दिनांकयुक्त डिजिटल फोटो

कालम के अंदर छात्र के हस्ताक्षर

Email Id :

Samagra Id :

9 छात्र का अन्य विवरण :-

लिंग		जाति	
बालक -1	<input type="checkbox"/>	अनुसूचित जाति -1 पिछड़ा वर्ग-3	<input type="checkbox"/>
बालिका -2	<input type="checkbox"/>	अनुसूचित जनजाति-2 सामान्य -4	<input type="checkbox"/>

- 10 संलग्न दस्तावेज (केवल अर्हकारी परीक्षा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के लिए.)  
(अ) प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।  
(ब) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची।  
(स) प्रवर्जन प्रमाण-पत्र।

**परीक्षार्थी की घोषणा**

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है यदि इसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी पाई गई तो मेरा परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा परिणाम कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

**प्राचार्य/अग्रेषण संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण**

मैं संबंधित दस्तावेजों की जाँच उपरांत प्रमाणित करता हूँ कि छात्र परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करता है।

दिनांक

संस्था क्रमांक

संस्था का नाम

हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित